

### ARCHIDPLY INDUSTRIES LTD. Corp. Office : 2/9, Ist Floor, W.H.S. Kirti Nagar, New Delhi-110015 (India) Ph : 011 - 45642555, 45530828, 42665112 Email : corporate@archidply.com

19.03.2024

Department of Corporate Services BSE Limited Floor 25<sup>th</sup>, P J Towers, Dalal Street Mumbai — 400 001

Scrip Code - 532994

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex Bandra (E) Mumbai – 400 051

NSE Stock Code – Archidply

Dear Sir,

## Subject: Submission of Newspaper Publication for Notice of Postal Ballot for appointment of Mr. Rohit Pareek as an Independent Director of the Company

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisement in respect of Notice of Postal Ballot published today i.e. 19.03.2024 in the following newspapers:

- 1. Financial Express
- 2. Jan Satta
- 3. Uttaranchal Darpan

We request to kindly take the same on record.

Thanking You!

Yours Faithfully

For Archidply Industries Limited

Atul Krishna Pandey Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

Regd. Office : Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estate, SIDCUL, Pantnagar, Rudrapur, Udham Singh Nagar - 263153 (Uttarakhand) Ph.: 05944 - 250270, Fax : 05944 - 250269 Email : info@archidply.com website : www.archidply.com CIN : L85110UR1995PLC008627

## **FINANCIAL EXPRESS**

### PUBLIC NOTICE

[Under section 102 (1) of the insolvency and Bankruptcy Code, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. MANAVJEET SINGH PERSONAL GUARANTOR TO M/S. RUBIQUE TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED (CORPORATE DEBTOR)

		PAKHCULARS
	Name of the Personal Guarantor	Mr. Manavjeet Singh S/o Jamail Singh Dhi
2.	Permanent Address of Personal Guarantor	<u>1901-1902, Bhagtani Heights CHD Ltd., Off Yari</u> Road, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061
3.	Interim Moratorium commencement date	18/10/2022
4.	Date of Initiation of individual insolvency resolution process	13.03.2024
5.	Moratorium commencement date	13.03.2024
6.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	-08.09.2024
	Name and registration number of the insolvency professional acting as resolution professional	CA Arvind Kumar Pilla Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02571/2021- 2022/13937
8.	Address and e-mail to be used for corre- spondence with the resolution professional	CA Arvind Kumar Pilla 404, Imperial Plaza, Opp. Anand Talkies, Somwar Bazar Road, Sitabuldi, Nagpur, Maharashtra – 440012 Email: catalystsec95@gmail.com, Mobile: 8007738999
9.	Last date for submission of claims	Monday, 08.04.2024
10	Relevant Forms for submission of claim	https://ibbi.gov.in/home/downloads
		tional Company Law Tribunal, Mumbai Bench that
th	e Hon'ble Bench has ordered the commence	ment of individual insolvency resolution process of

he Hon'ble Bench has ordered the commencement of individual insolvency resolution process o Mr. Manavjeet Singh S/o Jarnail Singh Dhir under section 95 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 vide order dated 13.03.2024 against the C.P. (IB) No. 1096/MB/2022. The creditors of Mr. Manavieet Singh S/o Jarnail Singh Dhir (Personal Guarantor of M/s Rubique

Technologies India Private Limited), are hereby called upon to submit their claims with proof on or before Monday, 08.04.2024 by electronic means or registered post or speed post or courier to the resolution professional at the address mentioned against entry No. 8.

Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws.

CA. Arvind Kumar Pilla IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02571/2021-2022/13937 Date: 19.03.2024 Email: caip.arvindpilla@gmail.com Place: Nagpur

## FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF UNIVERSAL CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT LIMITED

	KELEVANTI	PARTICULARS
1	Name of Corporate Debtor	Universal Construction Machinery and Equipment Limited
2	Date of incorporation of Corporate Debtor	09.09.2005
3	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs, ROC – Pune
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U29248PN2005PLC021271
5	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	<b>Registered Office:</b> Universal House, Warje Jakatnaka, Kothurd Naka, Kothurd, Pune – 411038. <b>Other Office:</b> Gate No. 327, 328 & 329, at Shivare post, Bhor Taluk, Pune- District, Shivare-412205.
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	13.03.2024 (The said order was received on 16.03.2024)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	09.09.2024
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Mr. Anurag Kumar Sinha Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00427/2017- 2018/10750
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: Flat No.3602, Redwood (Tower No. 7), Runwal Greens, Mulund -Goregaon Link Road, Bhandup (West), Mumbai City, Maharashtra, 400078

Email: aksinhaip3@gmail.com



### NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) ("Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular Nos 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 8, 2021, 03/2022 dated 05th May 2022 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by The Institute of Company Secretaries of India and SEBI Circular No. SEBI / HO / CFD / CMD1 CIR / P / 2020 / 79 dated 12th May, 2020, SEBI / HO / CFD / CMD2 / CIR / P / 2021 / 11 dated 15th January, 2021 and SEBI / HO / CFD / CMD2 / CIR / P / 2022 / 62 dated 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force), if any, Ace Integrated Solutions Limited ("Company") is seeking approval from its members by passing the special resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated March 18, 2024 ("Notice") by way of remote electronic votina.

The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-voting facility which is available at the link https://www.evoting.nsdl.com/. Accordingly, Members are requested to note that voting through electronic mode shall commence from Tuesday, March 19, 2024, 09.00 a.m. (IST) privards to Wednesday, April 17, 2024, 5.00 p.m. (IST). Shareholders are requested to read carefully the e-voting instructions given in the Notes forming part of the Postal Ballot Notice, before logging into the e-voting link.

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on Saturday, March 16, 2024 has appointed CS Atiuttam Prasad Singh, (Membership no. F8719) Proprietor of M/s. Atiuttam Singh & Associates, Practicing Company Secretaries, Delhi, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (only through Remote E-voting process) in a fair and transparent manner.

Members who have not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered as follows.

Members holding shares in Physical mode: Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail address are requested to update their email address by writing to the Company at cs@aceintegrated.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card and self-attested copy of any document (eg:- Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the member.

Members holding shares in Dematerialized mode: Members are requested to register their e-mail ID by sending e-mail to the Company at cs@aceintegrated.com with name of registered Member(s), folio number(s)/DP Id/Client Id and number of equity shares held from the e-mail address they wish to register

The voting rights of members shall be reckoned as on Friday, March 15, 2024 which is the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for Information purposes only.

The scrutinizer will submit his report to the Chairperson of the Company and the results of the Postal Ballot would be announced by the Chairperson of the Company on Thursday, April 18, 2024 at the Company's registered office. In addition to the results bein



Members of Archidply Industries Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, ("the Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings / conducting Postal Ballot process through e-Voting vide General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020, December 31, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 8, 2021, No.03/2022 dated May 5, 2022, No. 11/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars") Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2") and other applicable provisions, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company seeks approval of the Members through Postal Ballot only by way of remote voting through electronic means ("E-Voting") in respect of the following special business as specified in the Postal Ballot Notice dated January 25, 2024 along with explanatory statement thereto:

. No.	Description of Item	Type of resolution
1	Appointment of Mr. Rohit Pareek (DIN: 08132565)	Special Resolution
	as an Independent Director of the Company	

In compliance with aforesaid MCA Circulars, Notice of Postal Ballot has been sent through electronic mode on Monday, 18th March, 2024 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participant ("DP") or Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz KFIN Technologies Limited as on the Cut-off date i.e. Friday, 08th March. 2024.

The Notice of Postal Ballot is also available on the website of the Company i.e. www.archidply.com, website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and National Stock Exchange at www.nseindia.com and website of KFin Technologies Limited at www.kfintech.com. Members who do not receive the Notice may download it from the abovementioned websites

Aperson, whose name is recorded in the register of members/list of beneficial owner as on the cutoff date shall only be considered eligible for the purpose of e-voting. Any recipient of the Notice who was not a member of the Company as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The members of the Company are hereby notified that:

The voting rights of the Members shall be reckoned in proportion to the equity shares held by them on the Cut-off date on Friday, 08th March, 2024.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited for the purpose of providing e-voting facility to all its members on the resolution set forth in the Notice. The instructions for e-Voting are given in detail in Postal Ballot Notice.

The remote e-Voting period will commence on Tuesday, 19th March, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 17th April, 2024 at 5:00 P.M. (IST). Remote e-Voting will not be allowed beyond aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by KFin Technologies Limited upon expiry of the period.

The Company has appointed CS Rajneesh Sharma, Company Secretary in whole-time practice with Membership Number FCS: 5549 & COP: 24210 as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of e-voting along with Scrutinizer's report will be announced within 2 working days from the conclusion of the e-voting and will be placed on the website of the Company i.e. www.archidply.com and on the website of KFin Technologies Limited at www.kfintech.com. The results shall also be uploaded on the Bombay Stock Exchange (BSE) portal i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange portal i.e. www.nseindia.com. The Company will also display the Result of e-voting alongwith Scrutinizer report on the Notice Board of its Registered office.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members



### NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that the resolutions set out below are proposed for approval by the Members of the Company by means of Postal Ballot, only by way of remote evoting process ("e-voting") being provided by the Company to all its Members to cast their votes electronically, pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and all other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force).

Description of Resolution	Type of Resolution
<ol> <li>Appointment of Mr. Gordhanbhai B. Patel (DIN: 10535716) as an Independent Director.</li> </ol>	Special

In compliance with the MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose names appear on the Register of Members/ Depositories' records, as the case may be, as on the cut-off date Friday, March 15, 2024 and whose email address is registered with the Company's RTA/ Depository Participants (DP). The Company has completed dispatch of the said Notice on March 18, 2024. The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website www.exxarotiles.com, websites of the Stock Exchanges .e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules made hereunder and the MCA Circulars, the manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting i.e., by casting votes electronically instead of submitting postal ballot forms. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility. Members are requested to read the instructions in the Notes in this Postal Ballot Notice so as to cast their vote electronically. The votes can be cast during the following voting period:

Commencement of e-voting	09:00 Hrs. IST on Tuesday, March 19, 2024
End of e-voting	17:00 Hrs. IST on Wednesday, April 17, 2024

The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time. The last date of e- voting, i.e., April 17, 2024. shall be the date on which the resolution would be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Vasant Patel 8 Associates, Practicing Company Secretaries (CP No. 3848), as the Scrutinizers for conducting the Postal Ballot, through e-voting process, in a fair and transparent manner

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any person authorized by him in writing. The results of e-voting will be declared on or before Friday, April 19,

cor pro	ress and e-mail to be used for espondence with the interim resolution essional	Address: AAA insolvency Professionals LLP, 144, Mittal Court, B Wing, Nariman Point, Mumbai,Maharashtra - 400002 Email: universalconstruction.ibc@gmail.com 30.03.2024	April 18, 2024 at the Company's registered of communicated to National Stock Exchange of Ind the Scrutinizer's report will also be pla www.aceintegrated.com and also be available at the For ACI	dia Limited (NSE), the results along with aced on Company's website viz.	and e-voting user manual available at the 'dow Technologies Limited on 1800 309 4001 (toll fre	ee). For Archidply Industries Limited web Sd/- Atul Krishna Pandey	placed on the website of the osite of National Securities De nediately after the declaration	e Company www.e pository Limited (NS on of results by th	h the Scrutinizer's Report, will exxarotiles.com and on the SDL) www.evoting.nsdl.com he Chairman or any person immediately forwarded to the
	ses of creditors, if any, under clause (b) of	Not Applicable	1.00,0000	Sd/-	Place: New Delhi Date: March 18, 2024				e listed viz., BSE Limited and
	section (6A) of section 21, ascertained by interim resolution professional		Data / Marsh 49, 2024	Chandra Shekhar Verma (Managing Director)		Nat	ional Stock Exchange of India	Limited.	
	nes of Insolvency Professionals identified	Not Applicable	Date : March 18, 2024 Place : Delhi	DIN: 01089951		Whilst care is taken prior to /FA			Frequently Asked Questions r Shareholders available at the
	class (Three names for each class)		2010/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/			acceptance of acvertising	그 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같이 많이 있는 것이 있다. 것이 같은 것이 같이 많이		hay also send a request to Ms.
(b) are	Details of authorized representatives available at:	(a) Relevant Forms available at https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable Company Law Tribunal (NCLT), Mumbal Bench-II		dential Asset Managem	ent Company Limited	Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or	rld, 'A' Wing, 4" Floor, Kama	a Mills Compound,	es Depository Limited, Trade Senapati Bapat Marg, Lower evoting@nsdl.co.in or call on
has or	lered the commencement of a Corporation	te Insolvency Resolution Process of Universal ed vide Hon'ble NCLT Order in CP (IB) No.	PROJEKTIVE \$37	porate Identity Number: U99999		advertising in its newspapers	-4886 7000 and 022-2499 70		
1121/M	B/2022 dated 13.03.2024 (Order copy wa	as received on 16.03.2024).	AFTARAKKI KAREINI	pordie identity inditiber. 055555	DE1995FEC054155	or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries		On beha	If of the Board of Director's For, Exxaro Tiles Limited
to subn	it their claims with proof on or before 30.0	y and Equipment Limited, are hereby called upon 03.2024 to the Interim Resolution Professional at	Registered Office: 12th Floor, N	larain Manzil. 23. Barakhamba	Road, New Delhi - 110 001.	before sending any monies or entering into any			Sd/- Paras Shah
the add The fin	ress mentioned against entry no.10. ancial creditors shall submit their claims	with proof by electronic means only. All other		BKC, A - Wing, 13th Floor, Ban	A REAL PROPERTY AND A REAL		e: 12" March 2024	Company Secr	retary & Compliance Officer
creditor	s may submit the claims with proof in per		Bandra (East), Mumbai - 40	0 051; Tel.: +91 22 2652 5000,	Fax: +91 22 2652 8100,	advertisement in any Pla	ce: Ahmedabad		FCS: 12517
of auth	prised representative from among the thr	ree insolvency professionals listed against entry		pruamc.com, Email id: enquiry@					
	o act as authorised representative of the sion of false or misleading proofs of claim		그는 것은 같이 가지 않는 것 같은 것 같	loor, Block B-2, Nirlon Knowledg	승규가 많은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것을 것 같아요. 한 것 같아요. 한 것 같아요. 한 것			-	No. of Concession, Name
Date: 1 Place:		Sd/- Anurag Kumar Sinha Interim Resolution Professional al Construction Machinery and Equipment Limited, AFA valid till 21.12.2024	Notice to the Investors/Unit Prudential Corporate Bond F Prudential Bond Fund and IC	und, ICICI Prudential Bankir	Equity Savings Fund, ICICI ng & PSU Debt Fund, ICICI		E HDFC MUTUAL FUN BHAROSA APNO K	D A	MUTUAL FUNDS Sahi Hai
	100	Jan .	Notice is hereby given that IC	CICI Prudential Trust Limited,	Trustee to ICICI Prudential		Management Co : L65991MH1999PLC		lited
	Key2Ele	ments	Mutual Fund has approved th		같은 잘 다 같아요? 이 이번 지수는 것이 같아요? 이 것을 것이다. 정말은 것 같아요? 것 같아요? 것이 집 것 같아요? 것이 같아요?				alders Dealers after
	SUUMAYA CORPO CIN: L51909WB2		capital withdrawal option (ID	OCW option) of the Scheme	s, subject to availability of	Registered Office: HDFC House Churchgate, Mumbai - 400 020. Phor		이야기에 두려는 것이 많이 많이 잘 가지 않는 것이 없다.	
Read.	11	Corporate Off: B-20 Lotus Corporate Park,	distributable surplus on the re	cord date i.e. on March 21, 20	24*:		hdfcfund.com • Visit us at:		
Mullick	Fatak, Howrah Railway Station, Bally	Near Jai Coach, Western Express Highway,	Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDC	NAV as on		NOTICE		
Jagach	, U	Goregaon, Mumbai – 400063.	Hume of the Schemes/Fidits	(₹ per unit) (Face v	[1] (7.16 [1] (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		nav anna an a 1933 MANNA Anna an		
( <del>)</del>	Tel. No. +91-22-69218000 Websi			of ₹ 10/- each) <sup>\$</sup>		NOTICE is hereby given that HDF			
Notice	NOTICE OF POS s hereby given that pursuant to Section	on 110 and other applicable provisions of the	ICICI Prudential Equity Savin	2003.000.055.055.050		("the Fund"), has approved the follow ("IDCW") Option of HDFC Arbitrage	에는 가슴에 🐨 이 것 같아요. 이렇게 있는 것 같아. 그는 것이 가슴에 가슴 가슴을 가지 않는 것 같아.	A Design of the second s	
Compa	nies Act, 2013, read with Rule 2	22 of the Companies (Management and	<ul> <li>A second state of a second state of</li></ul>		12.05	("the Scheme") and fixed Thursday	그는 것 것 같아요? 이번 것 같은 것 같아? 아프 이제 안 집에 가지 않는 것 같아요. 집에 집에 들어졌다.		
		y statutory modification(s) or re-enactment o. 14/2020 dated April 08, 2020, and General	Quarterly IDCW	0.18	13.05	that day is not a Business Day) as t	승규는 요즘 것은 것은 것은 것을 가게 가지요. 다양도 같은 이상감만 가면 가지요.		
		General circular no. 22/2020 dated June 15, d September 28, 2020, General Circular no.	Direct Plan – Quarterly IDCW	0.18	15.17	Name of the Scheme / Plan(s) / C	Option(s) Amount of	Face Value	Net Asset Value
39/202	0 dated December 31, 2020 and Gene	ral Circular No.10/2021 dated June 23, 2021	ICICI Prudential Corporate B	ond Fund			Distribution	(₹ per unit)	("NAV") as on
		ember 8, 2021, General Circular No.3/2022 No.11/2022 December 28, 2022 ("General	Quarterly IDCW	0.2037	11.0452		(₹ per unit)	ŧ	March 15, 2024
Circula	rs") issued by the Ministry of Corpo	prate Affairs (the "MCA"), Regulation 44 of	Direct Plan – Quarterly IDCW	0.2895	15.2725				(₹ per unit)
Requir	ements) Regulations, 2015 (Listing	dia (Listing Obligations and Disclosure Regulation, as amended) and such other	ICICI Prudential Banking & F			HDFC Arbitrage Fund - Wholesale	Contraction of the Contraction o		10 701
		allot Notice seeking the approval of Members any") by voting through electronic mode ("e-			10.0700	Regular Plan - Normal IDCW Optio (Payout and Reinvestment)	11		10.731
voting/	emote e-voting") has been send by e-r	mail to the members/beneficial owners as on	Quarterly IDCW	0.2046	10.8738	HDFC Arbitrage Fund - Wholesale	Plan -		
	-off date i.e. March 08, 2024 ("Cut-c olders' in respect of the following resolu	off date") for obtaining the approval of the utions:	Direct Plan – Quarterly IDCW	0.2501	12.8329	Direct Plan - Normal IDCW Option			11.262
Sr. No		on of Resolution	ICICI Prudential Bond Fund			(Payout and Reinvestment)	10.89478 80.9103	40.00	(a. (a. (bas) with (b))
1		stitution of the Statutory Auditor M/S Aniket 21W), from proprietorship firm to partnership	Half Yearly IDCW	0.4638	11.4034	HDFC Arbitrage Fund - Wholesale	NUMBER VSINCE	10.00	100.000
	firm M/S Aniket Kulkarni and Associa due to conversion of sole proprietorsh	ates Chartered Accountants (FRN:130521W)	Direct Plan – Half Yearly IDC	W 0.4727	11.0833	Regular Plan - Monthly IDCW Optic	on		11.138
	THE REPORT OF A CONVERSION OF SOLE DRODRIETORS		Name of the Scheme/Plans	Quantum of IDC	N NAV as on	(Payout and Reinvestment)			
	192	rty transactions with Sillimava Industrias	function and benefiterine, filding	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Strate Inter Stiffing Statistics and Internet	HDFC Arbitrage Fund - Wholesale	V SCHOKA SAUKTON		
3	Approval for Material Related Par Limited for the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party	Transactions with Suumaya Industries		(₹ per unit) (Face v of ₹ 100/- each) <sup>≤</sup>		Direct Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Beinvestment)	8		10.919
3	Approval for Material Related Par Limited for the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T		ICICI Prudential Savinas Fur	of ₹ 100/- each) <sup>\$</sup>		(Payout and Reinvestment)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	aned shows or th	
4	Approval for Material Related Par Limited for the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T the FY 2024-2025	Transactions with Suumaya Agro Limited for Transactions with Suumaya Retail Limited for	ICICI Prudential Savings Fur	of ₹ 100/- each) <sup>\$</sup>	i# (₹ Per unit)		be the lower of that ment		e available distributable
4	Approval for Material Related Par Limited for the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T the FY 2024-2025	Transactions with Suumaya Agro Limited for Fransactions with Suumaya Retail Limited for Transactions with Mr. Ushik Mahesh Gala for	Quarterly IDCW	of ₹ 100/- each) <sup>§</sup> nd 2.0040	# (₹ Per unit) 108.9801	(Payout and Reinvestment) # Amount of distribution per unit will surplus (rounded down to a multiple	be the lower of that ment of five at the third decin	al) as on the Re	e available distributable cord Date.
4	Approval for Material Related Par Limited for the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T the FY 2024-2025 Approval for Material Related Party T the FY 2024-2025	Transactions with Suumaya Agro Limited for Fransactions with Suumaya Retail Limited for Transactions with Mr. Ushik Mahesh Gala for Fransactions with Ms. Ishita Mahesh Gala for	Quarterly IDCW Direct Plan – Quarterly IDCW	of ₹ 100/- each) <sup>\$</sup> nd 2.0040 / 2.0409	i# (₹ Per unit) 108.9801 109.2266	(Payout and Reinvestment) # Amount of distribution per unit will surplus (rounded down to a multiple Pursuant to the Distribution, would fall to the extent of su	be the lower of that ment of five at the third decim the NAV of the IDCV	al) as on the Re / Option(s) of	e available distributable cord Date. the above Scheme

Approval for Material Related Party Transactions with White Organic Retail Limited for the FY 2024-2025

In Compliance with the requirements of MCA Circulars, the hard copy of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statements and Postal Ballot form and pre-paid business reply enveloped has not been sent to the shareholders for this Postal Ballot and the shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote evoting system only.

Members whose email address is not registered, are requested to register their active email addresses with the Company by communicating the below information at scl.cs@suumaya.com and investor@bigshareonline.com with their name, number of shares held, DP ID/Client ID and email address.

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the cutoff date i.e., March 08, 2024. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat the notice of Postal Ballot for information purpose only.

The Company has engaged the service of Bigshare Services Private Limited for providing e-voting facility to all its members. The Members can opt for only one mode of voting i.e., evoting. The detailed procedure for voting has been provided in the Postal Ballot Notice.

Members are requested to note that the e-voting, will commence at 09:00 A.M (IST) on March 19, 2024, and will end at 5.00 P.M (IST) on April 17, 2024.

During this period members of the Company holding equity shares as on the cutoff date i.e. March 08, 2024, may cast their vote electronically only. The members are requested to peruse the proposed resolutions along with the explanatory statements and carefully read the instructions and cast a vote through e-voting facility not later than on April 17, 2024, at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by Bigshare Services Pvt Ltd for voting thereafter

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Rinkesh Gala and Associates (Membership No. ACS 42486, COP 20128), Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot only through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the Company's website on www.suumayacorporation.com

The result of the voting by Postal Ballot (along with the Scrutinizer's report) will be announced by the Chairman or any other Director or any other person authorised by the Chairman in this regard on or before April 19, 2024 at the Corporate Office of the Company situated at Mumbai, Maharashtra and will also displayed on the website of the Company (www.suumayacorporation.com), besides being communicated to the Stock Exchange.

In case there is a change in your registered email address, kindly update the same with your Depository. In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com under download section or you can email at ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

Place: Mumbai Date: March 19, 2024 By order of the Board of Directors of Suumaya Corporation Limited Ushik Gala (DIN: 06995765) Chairman & Managing Director

be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.

# Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

> For ICICI Prudential Asset Management Company Limited Sd/-

Place: Mumbai Date : March 18, 2024

Authorised Signatory

No. 011/03/2024

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.icicipruamc.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the applicable NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

As mandated under SEBI (Mutual Funds) Regulations and Master circular dated May 19, 2023, for redemptions and IDCW declared, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place : Mumbai Date : March 18, 2024

Sd/-Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.











जनसता

## पंजाब नैशनल बैंक 0 pnb punjab national bank

क्षेत्रीय कार्यालय 1–2. राघुनाथ नगर, एम0जी0 रोड आगरा

चल/अचल सम्पत्तियों का कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम–3 के साथ सहपठित धारा–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकत अधिकारी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता / कानूनी वारिस को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेत खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी गारन्टर / बंधककर्ता / कानूनी वारिस के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता / कानूनी वारिस को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा—13 (4) एवं नियम के उपनियम—8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उघारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता हैं। एतदद्वारा ऋणी ⁄ गारन्टर ⁄ बंधककर्ता / कानूनी वारिस को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सुचित किया जाता है कि चुंकि निम्न सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा / भौतिक कब्जा अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस संम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा / व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेत जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।

ऋणी/गारन्टर/बंधकॅकर्ता/कानूनी वारिस का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चकता कर बंधक सम्पत्तिय को वापिस छडा लें।

ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मंग सूबन	ভন্যা	मांग सूचना के अनुसार
व शाखा का नाम		दिनंक	বিশাক	बकावा धनराशि
पुत्र श्री छोटे लाल, श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री कृष्ण गोपाल	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मकान नम्बर— 6/2 (प्लॉट नम्बर—6 का भाग), कीर्ति विहार, नई आबादी, 100 फुट लिंक रोड, निकट कालिन्द्री विहार, जार0बी0 डिग्री कॉलेज, आगरा (उ0प्र0) के पीछे क्षेत्रफल—76.88 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री छोटे लाल)। <b>चौहद्दी:—उत्तर—6/3</b> अनीता सिकरवार का मकान, दक्षिण—6/1 पंकज मिश्रा का मकान, पूर्व— रोड 30 फुट चौड़ा, पश्चिम—राघव जी का प्लॉट नम्बर 6/4.	1.12.2023	3.03.2	रू. 17,97,971,50/- (सन्नह लाख सतानवे हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये और पचास पैसे मात्र) दिनांक 30.10.2023 तक + व्याज व अन्य खर्च दिनांक 01. 11.2023 से देव

## रथान–आगरा, दिनांक:– 19.03.2024

## प्राधिकृत अधिकारी



हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 HOUSING FINANCE दूसरी मंजिल, एससीओ-19, सरस्वती विहार, शॉपिंग कॉम्प्सेक्स चक्करपुर, (एम.जी. रोड मेट्रो स्टेशन के पास) गुड़गांव हरियाणा -122001

आरएलएम- श्री आशुतोष कुमार - 9870303707, सीएलएम- मुकुल शर्मा - 8285415168

### सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंद्जा हाउसिंग** फाईनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयक्त रूप से ''कर्जदार'' कहा गया है) के निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित हैं उक्त सचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भगतान करने को कहा गया था।

केर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है वि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंदर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा |

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की घारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क. सं.	कर्जदार⁄गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तिथि	ৰকাযা বাহা	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/UTM/UTTM/A000000096 CO/CPC/CPOF/A000000532 श्री दीपक और श्रीमती काजल और श्री बलराज, समीः मकान नं. 257 ग्राम जसाना 110, बदरपुर सैंयद, फरीदाबाद, हरियाणा – 121001		र 38,79,084/- दिनांक 07-10-2023 तक + ब्याज इत्यादि	प्लॉट क्षेत्रफल 808 वर्ग गज, खेवत नं. 298 में से, खतौनी नं. 337, मुस्तिल नं. 9/1(2-8), 12/2(2-18), 13/2(5-16), 19/1(4-10), 22/1/2(0- 19), 22/2(2-17), मुस्तिल नं. 8 Killa no. 16(0-2) मुस्तिल नं. 9 किला नं. /1(0-6) 2/1(4-10), 9/2(4- 17) 10(2-6), 11(4-5), 12/1(4-17) 19/2(4-17), 20(6-8) किटा 15 रक्बा 51, कनाल 16 मारला जोकि जसाना तहसील तिगांव जिला फरीदाबाद हरियाणा में स्थित चौहदी: पूरव में – धरम का प्लॉट, पश्चिम में – रास्ता, उत्तर में – प्रदीप खानपुर का प्लॉट, दक्षिण में – बलराज की डेयरी
2	आवेदन नं. HR/GGN/FRBD/A000000942 & CO/CPC/CPOF/A000001846 श्री मोहम्मद जलालुद्दीन और रुखसाना, दोनों मकान नं. 2135, ब्लॉक–सी, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा–121001	27-09-2023 14-03-2024 सांकेतिक	₹ 19,56,948/- दिनांक 19-09-2023 तक + व्याज इत्यादि	मकान क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, मुस्तकिल नं. 114 में से, किला नं. 14(8–0), वाका मौजा बढ़कल, तहसील एवं जिला फरीदाबाद हरियाणा– 121001 में स्थित, चौहदीः पूरव में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – 15 फीट रोड उत्तर में – तमीरा सुधा, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति
3	आवेदन नं. GR/KAP/KUNJ/A00000035 श्री शुभम सिंहमार, उषा देवी एवं बलकार सिंह, सभीः मकान नं. 787, गली नं. 8, फेज—1, अशोक विहार गुड़गांव, हरियाणा—121001		₹ 42,51,346/- दिनांक 17-10-2023 तक + ब्याज इत्यादि	सम्पत्ति / मकान / प्लॉट क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 357, वाका सिवाना मौजा गुरुग्राम गाँव हॉल कॉलोनी अशोक विहार हदूद नगर निगम गुरूग्राम, तहसील एवं जिला गुरूग्राम हरियाणा–121001 में स्थित, चौहदी: पूरव में – आम रास्ता, पश्चिम में – 8 फीट चौड़ी रोड़, उत्तर में – अन्य की संपत्ति, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति

नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड सीआईएन : L65993DL1970PLC146414 पंजीकत कार्यालय : 28, नजफगढ रोड, मोती नगर इन्डरिटयल एरिया, नई विल्ली 110015

कोन नं. (011) 45021854, 45021812, केंक्स नं. : (011) 25928118, 45021982 Email Id. for investors: investorcare@nalwasons.com.

Website: www.nalwasons.com


सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

अचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सुचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर इप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी कर देगी। जनना मन्न सनीजनमेजना विभिन्नेत के स्वितनी भोगन

फोलियो संख्या	रोयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	रोयरों की संख्या
89500	जयेश शाह	613596	61583483-61583490	8
70597	देवेंद्र सूरी	622280	61462613-61462628	16
76650	रेखा सूरी देवेंद्र सूरी	622279	61482870-61482885	16
422056	राजेश कोठारी	615854	62023019-62023033	15

जिन्दल रिट्म लिमिटेड के पुराने इक्विटी शेयर (अब नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड) (11.7.1999 तक जारी):

फोलियो संख्या	ष्टेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	होकरों क संख्या
83888	प्रवीन कुमार मंगल	213406	19239381-19239430	50
50353	पिंकी कीर्टि साह कीर्ति जेवालाल शाह	221473	15583803-15583817	15
3713	राहुल पालीवाल	4479 21641	530301 -530400 4794401-4794500	100 100
419448	अपर्गा विजय मुंगी विजय दिंगवर मुंगी	296119	27779221-27779265	45
44178	केतन थी मेहता भानचंद्र नागरदास मेहता	179287	14881022-14881106	85



परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें] कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति हेत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभुत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धार 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों नामतः अवधेश सा, सुशीला देवी, को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु. 6,50,566.51/- (रुपये छः लाख पचास हजार पांच सौ छियासठ एवं इक्यावन पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 18.12.2023 को एक माँग सचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 14 मार्च, 2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 6,50,566.51/- (रुपये छ लाख पचास हजार पांच सौ छियासठ एवं इक्यावन पैसे मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है। अचल सम्पत्ति का विवरण

# III

## डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 फोनः +91 11 41204444, dmi@dmihousingfinance.in

## [नियम–8(1) देखें ] कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

वूंकि, विशीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नेयमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त क्षक्तियों के अनुपालन में डीएमआई हाजसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मीजुदा अधोइस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति को तिथि से 60 दिनों के मीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणियों को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथि पर एक मांग सचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतदहारा ऋणी और सर्वसाधारण को सुधित किया जाता है कि अफोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे वर्णित तिथि पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्तियों के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ किया गया को लेन-देन सुचना में वर्णित राजि के लिए **डीएमआई डाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छड़ाने के लिए उपलब्ध ामय के संबंध में अधिनियम 13 की धारा उप—धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है |

क्र. सं.	ऋणी का नाम/ सह—ऋणी/ गारंटर	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक कब्जा सूचना दिनांक	बकाया राशि
1.	स्वर्गीय मनोज	संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल जिसमें शामिल है 'मकान जिन्द्र 484 जनमा जेन्द्र 4942 / 2 लाग जगत गाम जोनी	17.11.2023	रुपये
	पुत्र फकीर चंद के माध्यम से:- यह कानूनी प्रतिनिधि / कानूनी उत्तराधिकारी शारदा पत्नी स्वर्गीय मनोज कुमार और शारदा पत्नी स्वर्गीय मनोज कुमार (सहजधारकर्ता)	नंबर 484, खसरा नंबर 1342/3, खन्ना नगर, ग्राम लोनी ('चकवंदी बाहर), परगना और तहसील लोनी, जिला—गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102" निन्मानुसार परिबद्ध :- उत्तर में : शीर्षक विलेख के अनुसार दक्षिण में : शीर्षक विलेख के अनुसार पूर्व में : शीर्षक विलेख के अनुसार परिचम में : शीर्षक विलेख के अनुसार	13.03.2024	24,38,848 / – (रुपये चौबीस लाख अड़तीस डजार आठ सौ अड़तालीस केवल) दिगांक 07.11.2023
2.	स्वर्गीय मनीष कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह (मृतक) के माध्यम से:— यह कानूनी	संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल जिसमें ज्ञामिल है 'खेवट नंबर 113, खाता नंबर 123, मुरबा नंबर 32, किला नंबर	17.11.2023	रुपये 24,15,334 /
	(पुरावर) के माल्यन से वह बराषू ॥ प्रतिनिधि / कानूनी उत्तराधिकारी सुरेंद्र सिंह पुत्र शेर सिंह, निर्मला देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह, मनीषा रानी पत्नी स्वर्गीय मनीष कुमार, विकास कुमार पुत्र सुरेंद्र और सुरेंद्र सिंह पुत्र शेर सिंह, निर्मला देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह, मनीषा रानी पत्नी स्वर्गीय मनीष कुमार (गारंटर), विकास कुमार पुत्र सुरेंद (गारंटर) (सह—उघारकती)	4/1/2/1(3–1) 5/1/1(2–3) किता–2, ग्राम सरना खेडी, तहसील सफीवो, जिला–जींद, हरियाणा 126112" निन्मानुसार परिबद्ध :–	15.03.2024	(रुपये चौबीस लाख पंद्रह डजार तीन सौ चौतीस केवल) दिनांक 08,11,2023

1	MOTILAL OSWAL एसर	<b>तीलाल ओसवाल हो</b> ोरेट कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टॉग टी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई–400 नाईट www.motilaloswalhf.com,	<u>ग</u> र, रहीमतुल्ला सयानी रोड,
		मांग सूचना	
अधोह		त) नियम, 2002 ("नियम") के ाल होम फाइनेंस लिमिटेड (एमओएचए)	<b>प्रावधानों के तहत</b> कएल) के अधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (12
के सा उधारव अधोहर	ाथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का कर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख	प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 1 से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटि मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं,	13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया। , निम्नलिखि .स में उल्लिखित राशि चुकाने का आहवान किया गया है इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाने औ
के सा उधारव अधोहर	ाथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का कर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख स्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता	प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा म से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटि मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, की विवरण नीचे दी गई है: मांग सन्तन और	13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया। , निम्नलिखि .स में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है



### सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग** फाईनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जवारों (तदोपरान्त कर्जवार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से 'कर्जवार'' कहा गया है) कं निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित हैं उक्त सचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सुथित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की घारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्ति के साथ र्लन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की घारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित परिसंपत्तियों के मक्त करने हेत उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

			मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई—मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी'')	क. खाता का	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, मां	ग सूचना अधिग्रहण अधिग्रहण	ा सूचना की तिथि
क्र. कर्जदार⁄गारन्टर के नाम सं. एवं पता	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तिथि बकाया रा	शि अचल सम्पतियों का विवरण	या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 तक पंजीकृत हैं।	सं. नाम		C	तार बकाया राशि
आवेदन नं.           HR/NCH/GURH/A000000464CO CPC/CPOF/A000001978           श्री विक्रम राजदान और सुश्री पल्लवी थ राजदान, दोनों: मकान नं. वी–104, रं 52 नोएडा, गौतम बुद्ध न मारत–201301	२/ <b>12-03-2024</b> विनांक 26-08-2023 + ब्याज इत नगर,	3 तक जाना जाता है, जोकि जीएच—11, सेक्टर त्यादि योदि	टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर⁄लाभार्थी स्वामी की सूची में दर्ज है, उन्हें केवल ई–वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। नोटिस का कोई भी प्राप्तकर्ता जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी का सदस्य नहीं था, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। कंपनी के सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है किः	रू <b>संपत्ति/यों का विवरण :</b> आवासीय संपत्ति अ जंगल तिंकोनिया नं.– 1, थाना एवं परगना-	सर्स इंडिया रेफ्रिजरेशन (उधारकर्ता) 21- एजाज अहमद (सह–आवेदक) खसाना बेगम (गारंटर / बंधककर्ता) रिजी सं.– 331 के समस्त वह भाग तथा अंश, क्षेत्रप – हवेली, तहसील– सदर, जनपद– गोरखपुर–273 भूमि, उत्तर– अंसारी की भूमि, दक्षिण– सड़क 10 प	दिनांक क्ल— 720 वर्ग फुट त्र 66.91 वर्ग मीटर 3014 में स्थित, निम्नानुसार परिसीमित है फुट चौड़ी।	है :– पूर्व– तैयब
2 आवेदन नं. HR/NCH/GURH/A000000459 श्री पवन कुमार पाल एवं श्रीमती दय दोनों: मकान नं. ई–11, शुम सिटी–3, जलालपुर, गौतम बुद्ध नगर, भारत–201009	ावती, 12-03-2024 दिनांक रोजा सांकेतिक 11-07-2023	00/- फ्लैट नं. बी—1608, क्षेत्रफल 1240 वर्ग प्रोजेक्ट जिसे ''गायत्री ऑरा'' के नाम से ज तक जाता है, जीएच—11, सेक्टर—1, ग्रेटर नोष त्यादि यूपी।	फुट 1. सदस्यों के मताधिकार की गणना शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 को कट—ऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनपात में मानी जाएगी।	र्संपत्ति/यों का विवरण : आवासीय संपत्ति व देहमाटी, परगना एवं एएमपी, तहसील सदर, पश्चिम– 15 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर– 6 फु	श्रीमती बंबीता गुप्ता (सह–आवेदक) हे समस्त वह भाग तथा अंश, जो अरजी सं. 17 व जनपद–211001, प्रयागराज (इलाहाबाद) में स्थित	-12—2023 16—03—2024 दिनांक वं के भाग पर, माप 68 वर्ग मीटर, ग्राम ए 1, निम्नानुसार परिसीमित है :— पूर्व— रा	ानी देवी का घर, <b>हस्ता./–</b>
3 आयेदन नं. DL/KRB/KRBH/A000000338 CO/CPC/CPOF/A000000391 श्री जोगेंद्र कुमार और श्रीमती द चंद्रपाल, दोनों: मकान नं. डी–1, एन्क्लेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, 201002	सकातक + व्याज इत		पर भी.) भी.) भी.) भी.) भी. भी. भी. भी. भी. भी. भी. भी.	दिनांक : 19-03-2024 स्थान : वाराणसी इंडियन क इलाहा		(प्रा उत्कर्ष स्मॉल फाइने dian Ban LAHABAD	
4         आवेदन नं.           DL/DEL/PAND/A000000258         श्री राहुल और श्रीमती रीना, <u>दोनों:</u> बाजार, केएच एन–183, एन–3, मुक पार्ट–2, दिल्ली 110042           दिनांक : 18-03-2024, स्थान : गाजियाब	सोम इंदपुर सांकेतिक + ब्याज इत	45/- भूमि क्षेत्रफल 60 वर्ग गज अर्थात 50.16 वर्ग पर प्लॉट, खसरा नं. 117 में से, मोजा संबिस्वा में, बहार सिमा नगुरपालिका मुरादन्	भी       www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल यानी www.nseindia.com पर भी अपलोड         पाप       किए जाएंगे। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संवीक्षक रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग का परिणाम         भी       फिए जाएंगे। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संवीक्षक रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग का परिणाम         भी       प्रदर्शित करेगी।         किसी भी प्रष्टन / शिकायत के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और         केसी भी प्रष्टन / शिकायत के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और         केसी भी प्रष्टन / शिकायत के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और         केसी भी प्रहर / शिकायत के मामले में (अपलोड अनुभाग पर उपलब्ध ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख         की       सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 18003094001 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं।         की       कृते आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड         का       खतल कष्ण पांडे, कंपनी सचिव	<u>अच्छ</u> वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूति <u>प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002</u> जैसाकि, इंडियन बैंक के बकायों के तथा उसमें वर्णितानुसा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्गठनतथा प्रतिभा	पंषापंत्र रेपा जगारेग प्रबन्धन राखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001 फोन नं <u>परिशिष्ट- IV-A" (नियम 8 (6) परन्तुक देखें)</u> लि संपत्तियों की बिढ़ठी के लिए बिढ़टी व करण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनिय के पठित नियम 8(6) के अर्न्तगत बैंक में बंधक रखी अध त बाज की वसूली हेतु " जहाँ है जो है, जो कुछ भी है वहां पर" व ति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के बारा 13(2)के अधीन जारी के के बकायों का पूर्न भुगतान न करने के फलस्वरूप, अधिनियम की	<b>नोटिरा</b> <u>म (सरफेसी) 2002 के अर्न्तगत एवं</u> <u>बल सम्पत्तियों की ई—नीलामी की सूचना</u> के आचार पर उसे बेचने के अचिकार के साथ निम्नी की गई सचना के अनुपालन में बैंक के प्राधिकत अधि	लिखित ऋण खाता में वेकारी ने निम्नलिखित ज्ये बार अपोक्स्वाम्वरी
मुथूट फिनकॉर्प लिमिटे		ा स्मॉल फाइनेंस बैंक	पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और		ट https://www.instcecommerce.com के माध्यम से बिक्री प्रभारित / बंधक / दृष्टिबंधक की गई परिसम्पति (परिसम्पत्ति से संबंधित समी		
नीलामी की तारीख में परिवर्त		(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)	12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, छल्लाघट्टा, बैंगलोर—560071	स. निर्देशकर्गभा / बंबककर्ताओ / जमानतकर्ता के नाम एवं पता	भारतन्मात (भारतन्मातत स संभावत समा भाग व एवं हिस्सों सहित)	प्रतिभूति ऋण राशि (ग) ईएमढी जमा करने इतु खाते का विवरण	
हमारे पहले की अधिसूचना के अनूर	गर		जिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली—110005			(ঘ)বৃদ্ধিগাঁল ৰিও থাগা	र्य समय संपत्ति आईडी नंठ
তা "Jansatta & The Indian Expre	👝 🛛 जबकि आपने नीचे उल्लिखित उधा	ारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों और बंधककर्ताओं :	र की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आपके द्वारा	<ol> <li>मेसर्स अंजुल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, Clo मेसर्स भाग्यश्री हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गर</li> </ol>	संपति 1— मकान स्थित प्लॉट नंध डी—50, शास्त्री नगर, मेरर डाँडेडददी— उत्तर मकान नंध डी—52 दक्षिण: मकान नंध डी —48 ट पूर्व: मकान नंध डी—122 पश्चिम: सडक उत्तक बाद पार्क	8 06.02.2019 평} 표 14,49,000-	26.04.2024 साय 05.00 बजे तक
में 31.01.2024 को आया था, हम स ग्राहकों को सूचित करते हैं, LUCKNOW RAIBAREILY जिले की प्रस्तावित नील	अौर उक्त अधिनियम की धारा उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर	13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते	वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता है, हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित नों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तारीख से,	राह, मरद 250004, पंजाकृत पंता— 27 11वा, वसमत जंगपुरा, नई दिल्ली 110014। 2. श्री पंकज त्यांगी पुत्र स्व0 श्री जय पाल सिंह त्यांगी डी50, शास्त्री नगर, मेरत 250004। 3. श्रीमती अंजुल त्यांगी पत्नी श्री पंकज त्यांगी, डी–50	संपति 2-संपति स्थित प्लॉट नं0 231 एवं 233, मंगल पांडे नगर मेरत, फ्रॉट 231 की चीहददी-, उत्तर: 15.20 मीटर, प्लॉट नं0 229	190 29.08.2019 तथ + स्वाण एवं अन्य धार्थे (FSC- DIBWCH561	29.04.2024 पूर्वान्ह11.00 करने से अपरान्ह 4.00वजे संपत्ति आईक्षी नंग IDIB6423202104
जो 21.02.2024 को हमारें नीलामी केंद्र	में क्र. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ सं. गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या लाग और ऋण राशि	ूं की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण और डिमांड नोटिस की तारीख	<ul> <li>शास्त्री नगर, मेरठ 250004  </li> <li>4, औ सुशील भाटिया पुत्र स्व0 श्री ठाकर दास भाटिया, एल-1511, शास्त्री नगर, मेरठ 250004  </li> </ul>	9.25 मीटर सर्विस त्तेड । 1, प्सॉट 233 <b>की चीडददी-</b> : उत्तर: 15.20 मीटर प्सॉट नं0 231. यक्षिण: 15.20 मीटर प्सॉट नं0 235. पूर्व: 9.25 मीटर रास्ता.	2.하) 후. 3,85,30,0004 평3) 후. 38,53,0004 (제) 전대대 편()	26.04.2024 सार्य 05.00 बजे तक
27.03.2024 में आयोजित की जाएगी ।				12 जिसकी अधिक प्राणित्व गयती की समीच आदिता	▼ 제 책 [문화학] 및 영화 (학) 등장 '안() 위험 (학) 중입		29.04.2024
मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के लि <b>"INPORTANI</b> Whilst care is taken prior acceptance of advertisir copy, it is not possible to ver its contents. The India Express (P) Limited cann	1 1) श्री अरुण कुमार (आवेदक), 2)श्रीमती रितु शर्मा (सह-आवेदक)	47919430000722 ,399 ∕ 1 का भाग खतौनी उद्यार की राशिः मरले, वाका मौजा डेरा नं. रु. 18,00,000 ∕ - शर्मा, पत्नी श्री अरुण कुमान् घर, पश्चिमः गली 27 फीट फीट दूसरे का प्लॉट	रण: भाग-'ए' - बंधक चल संपत्तियाँ: $5/59$ खेवट नं.एनपीए की तारीख $02.032024$ $v.18,82,078/-$ (अट्ठारह लाख बयासी हजार $02.032024$ 446, खसरा नं. $100//15/4$ (2–19), बख्तर 00–05 190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु t. के स्वामित्व में। चौहददी :पूर्व: पार्श्व 27 फीट दूसरों का t; उत्तर: पार्श्व 50 फीट दूसरे का घर, दक्षिण: पार्श्व 50एनपीए की तारीख $02.032024$ $v.18,82,078/-$ (अट्ठारह लाख बयासी हजार $02.032024$ 12-03-2024 तक की तारीख 15.03.202412-03-2024 तक	<ol> <li>श्रीमती कविता भाटिया पत्नी श्री सुष्ठील भाटिया एल-1511, शास्त्री नगर, मेरत 250004।</li> </ol>	1, पारवन: 9.25 मोटर सावस राज संपत्ति 3-संपत्ति स्थित प्लॉट नंग 235, मंगल पांडे नगर, मेरट चौडदयी जलर: 15.20 माउंट। संपत्ति की दीवार फिर संपत्ति संख्या 233, दक्षिण: 15.20 मी. संपत्ति की दीवार किर संपत्ति संख्या 237, पूर्व 18.50 मीटर संपत्ति का दरवाजा, किर 9.0 मीटर वॉझी सड़क, परिवन्ध 18.50 मी. संपत्ति का दरवाजा फिर सर्विर लेन।	21781483876 IFSC-IDIB000H561 (1) 25,000f-	संपत्ति आईवी मंठ IDIB6423202104 26.04.2024 सायं 05.00 बजे तक 29.04.2024
Juc board Albert Albert A	1       1) श्री अरुण कुमार (आवेदक),         2)श्रीमती रितु शर्मा (सह-आवेदक)         इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्टि कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई कु के अनुसार संबंधित ऋण खाते देय हो सकती है, का भुगतान होगा। कॉलम नंबर 4 में. कृग्	47919430000722 उधार की राशिः रु. 18,00,000/- जखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर और बंध कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया ज नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों स	446, खसरा नं. 100 / /15 / 4 (2–19), बख्तर 00–05       तारीख       (अद्वारह लाख बयासी हजार         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       02.032024       (अद्वारह लाख बयासी हजार         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       डिमांड नोटिस       12–03–2024 तक         12-03-2024 तक       डिमांड नोटिस       की तारीख         12-03-2024 तक       12–03–2024 तक         12-03-2024 तक       की तारीख         15.03.2024       12–03–2024 तक         14000 ति देवा जाता है, जिसमें उनसे सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के खिलाफ         इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि         ताता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक         लिमिटेड वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज लागू करने के लिए डचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य         और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के	एल—1511, शास्त्री नगर, मेरत 250004 । इच्छूक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्ष	संपत्ति अ-संपत्ति स्थित प्लॉट नंग 235. मंगल पांडे नगर. मेरट चौहददी उत्तर: 15.20 माउट। संपत्ति की दीवार फिर संपत्ति संख्या 233, दक्षिण: 15.20 मी. संपत्ति की दीवार किर संपत्ति संख्या 237, पूर्व 18.50 मी.टर संपत्ति का दरवाजा किर सार्विर वौद्धी सड़क, पश्चिम: 18.50 मी. संपत्ति का दरवाजा किर सार्विर लेन। ण के बारे में सल्यापन के लिए, इंडियन बैंक दबावग्रस्त आस्ति प्रबन	21781463876 IFSC-IDIB000H561 (घ) 25,0004- उ.क) रू. 1,76,74,0004- ख) रू. 17,67,4004- ख) रू. 17,67,4004- (ग) खाला रूंठ 21781483876 IFSC-IDIB000H561 (घ) 25,0004- व्यन शाखा,लाखनऊ से कार्यालय रामय में विनांक 26.0	पूर्वान्ड11.00 वजे से अपरान्ड 4.00वजे संपत्ति आईंडी नंध IDIB6423202104 साथ 05.00 बजे तक 29.04.2024 साथ 05.00 बजे तक 29.04.2024 पूर्वान्ड11.00 वजे संपत्ति आईडी नंध IDIB6423202104
Juc boot a line of a divertising in its newspape	1       1) श्री अरुण कुमार (आवेदक),         2)श्रीमती रितु शर्मा (सह-आवेदक)         इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्टि कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई कु के अनुसार संबंधित ऋण खाते देय हो सकती है, का भुगतान होगा। कॉलम नंबर 4 में. कृष् उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गा उक्त अधिनियम की धारा 13(13	47919430000722 उधार की राशिः रु. 18,00,000/- अधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर और बंध जिया जाता है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों न रंटर / बंधककर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाइनेंस के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सह	446, खसरा नं. 100 / /15 / 4 (2–19), बख्तर 00–05       तारीख       (अट्ठारह)         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       02.032024       (अट्ठारह लाख बयासी हजार         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       डिमांड नोटिस       और अठहत्तर रुपये मात्र)         12-03-2024 तक       डिमांड नोटिस       की तारीख         12-03-2024 तक       12-03-2024 तक         12-03-2024 तक       12-03-2024 तक         140 करती को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के खिलाफ         इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि         ताता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक         तिमिटेड वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य         और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के         त बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि जैसा कि	एल—1511, शास्त्री नगर, मेरत 250004   इच्छुक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्ष (42024 तक संपर्क कर सकते हें एवं नीलामी से सबधित ज	संपत्ति ७-संपत्ति स्थित प्लॉट नंग 235. मंगल पांडे नगर, मेरद चौड़ददी उत्तर: 15.20 माउंट। संपत्ति की दीवार फिर संपत्ति संख्या 233, दक्षिण: 15.20 मी. संपत्ति की दीवार किर संपत्ति संख्या 237, पूर्व 18.50 मीटर संपत्ति का दरवाजा, किर 80 मीटर चौड़ी सड़क, परिचम: 18.50 मी. संपत्ति का दरवाजा किर सर्विर लेन। ण के बारे में सत्यापन के लिए, इंडियन बैंक दबावग्रस्त आस्ति प्रबन् ानकारी के लिए इच्ह्यूक बोलीदाता फोन में. 05222288988 से स	21781463876  FSC-IDIB000H561 (घ) 25,0004- (घ) 25,0004- ख) रू. 17,67,4004- ख) रू. 17,67,4004- ख) रू. 17,67,4004- (ग) खाला संग (ग) खाला संग 21781463876  FSC-IDIB000H561 (घ) 25,0004- स्थन शाखा,लखनर सं कार्यालय रामय में दिनांक 26.0 संपर्क कर सकते है	पूर्वान्ड11.00 वजे से अपरान्ड 4.00वजे संपत्ति आईडी नंध IDIB6423202104 26.04.2024 साथ 05.00 बजे तक 29.04.2024 पूर्वान्ड11.00 वजे से अपरान्ड 4.00 बजे संपत्ति आईडी नंध IDIB64232012104 03.2024 से दिनांक 26.
Juc book of a second se	1       1) श्री अरुण कुमार (आवेदक),         2)श्रीमती रितु शर्मा (सह-आवेदक)         इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्टिक कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई कु के अनुसार संबंधित ऋण खाते देय हो सकती है, का भुगतान होगा। कॉलम नंबर 4 में. कृष् उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गा उक्त अधिनियम की धारा 13(13) संपत्ति के हस्तांतरण से रोका /	47919430000722 उधार की राशिः रु. 18,00,000/- जखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर और बंध कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया ज नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों रंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाइनेंस के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सह जिषिद्ध किया जाता है।	446, खसरा नं. 100 / /15 / 4 (2-19), बख्तर 00-05       तारीख       (अद्वारह लाख बयासी हजार         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       02.032024       (अद्वारह लाख बयासी हजार         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       डिमांड नोटिस       12-03-2024 तक         12 जतरः पार्श्व 50 फीट दूसरे का घर, दक्षिणः पार्श्व 50       डिमांड नोटिस       12-03-2024 तक         12-03-2024 तक       डिमांड नोटिस       की तारीख         15.03.2024       12-03-2024 तक       12-03-2024 तक         146, खसरा मं 1 चौहददी :पूर्व: पार्श्व 27 फीट दूसरों का       डिमांड नोटिस       की तारीख         15.03.2024       डिमांड नोटिस       की तारीख         15.03.2024       कि तारी ख       12-03-2024 तक         16.00       के तारी ख       के तारी ख         17.00       के तिरि देवा जाता है, जिसमें उनसे सभी संबंधित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता के खिलाफ       12-03-2024 तक         18.01       के तारी ख       के तारी ख       15.03.2024         19.02       के तारी ख       के तारी ख       15.03.2024         19.03       के तारी ख       के तारी ख       16.03.61 (स क	एल–1511, शास्त्री नगर, मेरत 250004। इच्छुक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्ष (4.2024 तक संपर्क कर सकते हैं एवं नीलामी से संबंधित ज अधिक जानकारी और नियम एवं शर्रो	संपत्ति ७-संपत्ति स्थित प्लॉट नंग 235. मंगल पांडे नगर. मेरत चौहददी: उत्तर: 15.20 माउट। संपत्ति की दीक्षर फिर संपत्ति संख्या 233, दक्षिण: 15.20 मी. संपत्ति की दीक्षर किर संपत्ति संख्या 237, पूर्व 18.50 मीटर संपत्ति का दरवाजा, किर श0 मीटन चौड़ी सड़क, पश्चिम: 18.50 मी. संपत्ति का दरवाजा किर सर्विर लेन। ण के बारे में सत्यापन के लिए, इंडियन बैंक दबावडरस्त आस्ति प्रबन् ानकारी के लिए इन्द्रुक बोलीदाता फोन नं. 0522-2288988 से स डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें- i. <u>https://ibapi.in</u>	21781463876 [FSC-IDIB000H561 (घ) 25,000f- छ) रू. 17,67,4000f- छ) रू. 17,67,400f- छ) रू. 17,67,400f- (प) खाला संग्रे 21781483876 [FSC-IDIB000H661 (घ) 25,000f- (घ) 25,000f- विमार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वार्य स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वार्य स्वाय स	पूर्वान्ड11.00 वजे से अपरान्ड 4.00वजे संपत्ति आईडी नंध IDIB6423202104 26.04.2024 साथ 05.00 बजे तक 29.04.2024 पूर्वान्ड11.00 वजे से अपरान्ड 4.00 बजे संपत्ति आईडी नंध IDIB64232012104 03.2024 से दिनांक 26.
Juc board Albert	1       1) श्री अरुण कुमार (आवेदक),         2)श्रीमती रितु शर्मा (सह-आवेदक)         इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्टिक कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई कु के अनुसार संबंधित ऋण खाते देय हो सकती है, का भुगतान होगा। कॉलम नंबर 4 में. कृष् उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गा उक्त अधिनियम की धारा 13(13 संपत्ति के हस्तांतरण से रोका/	47919430000722 उधार की राशिः रु. 18,00,000/- जखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर और बंध कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया ज नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों रंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाइनेंस के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सह जिषिद्ध किया जाता है।	446, खसरा नं. 100 / /15 / 4 (2–19), बख्तर 00–05       तारीख       (अट्ठारह)         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       02.032024       (अट्ठारह लाख बयासी हजार         190, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला जो श्रीमती रितु       डिमांड नोटिस       और अठहत्तर रुपये मात्र)         12-03-2024 तक       डिमांड नोटिस       की तारीख         12-03-2024 तक       12-03-2024 तक         12-03-2024 तक       12-03-2024 तक         140 करती को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के खिलाफ         इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि         ताता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक         तिमिटेड वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य         और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के         त बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि जैसा कि	एल–1511, शास्त्री नगर, मेरत 250004। इच्छुक बोलीदाता शीर्षक दस्तावेज, संपत्ति और उसके निरीक्ष (4.2024 तक संपर्क कर सकते हैं एवं नीलामी से संबंधित ज अधिक जानकारी और नियम एवं शर्रो	संपत्ति ७-संपत्ति स्थित प्लॉट नंग 235. मंगल पांडे नगर, मेरद चौड़ददी उत्तर: 15.20 माउंट। संपत्ति की दीवार फिर संपत्ति संख्या 233, दक्षिण: 15.20 मी. संपत्ति की दीवार किर संपत्ति संख्या 237, पूर्व 18.50 मीटर संपत्ति का दरवाजा, किर 80 मीटर चौड़ी सड़क, परिचम: 18.50 मी. संपत्ति का दरवाजा किर सर्विर लेन। ण के बारे में सत्यापन के लिए, इंडियन बैंक दबावग्रस्त आस्ति प्रबन् ानकारी के लिए इच्ह्यूक बोलीदाता फोन में. 05222288988 से स	21781463876 [FSC-IDIB000H561 (घ) 25,000f- छ) रू. 17,67,4000f- छ) रू. 17,67,400f- छ) रू. 17,67,400f- (प) खाला संग्रे 21781483876 [FSC-IDIB000H661 (घ) 25,000f- (घ) 25,000f- विमार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वार्य स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वार्य स्वाय स	पूर्वान्ड11.00 बजे से अपरान्ड 4.00वजे संपत्ति आईवी नंध IDIB6423202104 साय 05.00 बजे तक 29.04.2024 पूर्वान्ड11.00 बजे संपत्ति आईवी नंध IDIB6423202104 03.2024 से दिनांक 26.

आवासीय भूखंड खसरा नंबर 1143 का हिस्सा का समस्त भाग, माप 1000 वर्ग फुट यानी 92.936 वर्ग मीटर, कल 10000 वर्ग फट में से, प्लॉट-ग्राम और पोस्ट-मौंदा, तहसील सरोजनी नगर, ग्राम मौंदा, परगना बिजनोर, बुद्धेश्वर मंदिर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008 में स्थित, और, सीमाएं: पूर्वः भुखंड का बाकी हिस्सा; पश्चिमः 22 फीट रोड उत्तरः मुकुट बिहारी गार्डन; दक्षिणः भुखंड का शेष भाग নিথি

:	14.03.2024			_ह.∕- २	मधिकृत	प्राधिकारी
:	लखनऊ	आदित्य	बिरला	हाउसिंग	फाइनेंस	लिमिटेड

## आर्किडिप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान

(सीआईएन: L85110UR1995PLC008627) रजि. कार्यालयः प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, इंटीग्रेटेड इंडस्टियल एस्टेट, सिडकूल, पंत नगर, उधम सिंह नगर, रूद्रपुर, उत्तराखंड, 263153, फोनः 05944-250270, फैक्सः 05944-250269, कॉर्पोरट कार्यालयः प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक नंबर 1, डब्ल्यू.एच.एस., कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, फोन-011-45530828, 011-45642555, वेबसाइटः www.archidply.com, ईमेलः cs@archidply.com

### डाक मतपत्र सूचना

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और धारा 110 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 201 के विनियमन 44 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के अन्य लागू प्रावधान के अनुसार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए परिपत्र") सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक अप्रैल 8, 2020, क्रमांक 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, क्रमांक 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, क्रमांक 22/2020 दिनांक 15 जुन 2020 क्रमांक 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020, क्रमांक 39/2020, 31 दिसम्बर 2020, क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, क्रमांक 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, क्रमांक 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर 2021, क्रमांक 03 / 2022 दिनांक मई 5, 2022, संख्या 11 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और संख्य 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ("एसएस–2") द्वारा जारी सामान्य बैठकं पर सचिवीय मानक और अन्य लागू प्रावधान, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू होने वात पुनः अधिनियमन शामिल हैं, द्वारा ई—वोटिंग के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करना⁄डाक मतपत्र प्रक्रिय का संचालन करने हेतू कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपर्न 25 जनवरी, 2024 के डाक मतपत्र नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण के साथ निर्दिष्ट निम्नलिखित विशेष कार्यवाई के संबंध में केवल इलेक्ट्रॉनिक यानि ("ई–वोटिंग") के माध्यम से दूरस्थ मतदान के माध्यम से डाक मतपत्र व माध्यम से सदस्यों की मंजूरी चाहती है, इसका अर्थ है

क्र.	विषय का	संकल्प का
सं.	विवरण	प्रकार
1.	कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री रोहित पारीक(डीआईएन : 08132565) की नियुक्ति।	विशेष संकल्प

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, डाक मतपत्र की सूचना सोमवार, 18 मार्च, 2024 को इलेक्ट्रॉनि

ध्यान दें कि एमओएचएफएल एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहता है, तो एमओएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं। यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके और भूगतान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। एमओएचएफएल को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लाग करने से पहले संरक्षित संपत्ति को संलग्न करने औरध्या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य एमओएचएफएल को देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो एमओएचएफएल को शेष बकाया राशि की वसुली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी अन्य कानन के तहत एमओएचएफएल के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सरक्षित परिसंपत्तियों को भनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को एमओएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी सरक्षित परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के निपटान या उसके साथ व्यवहार करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका ∕ निषिद्ध किया गया है। और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी और उधारकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

### स्थानः उत्तर प्रदेश दिनांकः 19-03-2024 अनुवाद मे त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा।

हस्ता / -प्राधिकत अधिकारी (मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)



क्षेत्रीय कार्यालय : एस–24 / 1–2, प्रथम तल, महावीर नगर, ऑर्डर्ली बाजार, महावीर मंदिर के समीप, वाराणसी–221 002 पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच–31 (एयरपोर्ट मार्ग), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221 105

### अचल संपत्ति हेत् अधिग्रहण सूचना

एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें इसके बाद निम्न तालिका में वर्णितानूसार प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को बकाया राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभगतान करने को कहा गया था।

चंकि उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चके हैं, अतएव एतदद्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथि पर अधिग्रहण कर लिया है।

अतः अब ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष निम्नानसार अंकित बकाया धनराशि और इस राशि पर नियत ब्याज हेतु उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र.	खाता का	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता,	मांग सूचना	अधिग्रहण	अधिग्रहण सूचना की तिथि
सं.	नाम	बंधककर्ता एवं गारंटर का नाम	की तिथि	की तिथि	के अनुसार बकाया राशि
1.	135406000006031	मैसर्स इंडिया रेफ्रिजरेशन (उधारकर्ता) एजाज अहमद (सह–आवेदक) रुखसाना बेगम (गारंटर / बंधककर्ता)	21—12—2023	15—03—2024	1रु. 16,16,299 / – दिनांक 15–03–2024 के अनुसार

- H						
	2.	135205000000087	श्री पवन कुमार (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्रीमती बबीता गुप्ता (सह–आवेदक)	21—12—2023	16—03—2024	रु. 19,42,550 ∕ – दिनांक 15–03–2024 के अनुसार

1			
	दिनांक	: 1 <del>9-</del> 03-2024	(प्राधिकृत अधिकारी)
	स्थान	ः वाराणसी	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



वावा

हिन्दी साच्य दैनिक 'उत्तरांचल दर्पण'

रेश एप्रूव्ड कालोनी

30 से 60 तक चौड़ी सड़कें,

बड़े-बडे पार्क, शेट बंद कालोनी

90 प्रतिशत तक ऋण शुविधा,

सीवरेज, स्ट्रीट लाईट

🖝 100 से 400 गज तक के प्लाट 100,160, 200 गज विला 🖝 खरीदने व बेचने हेतु सम्पर्क करें। 100 से अधिक परिवार रह रहे

तोमर कस्ट्रक्शन श्री राधा स्वामी सत्संग घर गेट नं. 7 के सामने किच्छा रोड, रूद्रपुर मोबा. 9557222289,7088169159

डायनामिक गार्डन सिटी

#### **ch ch** 10

जहर

**रहा गोरखधंधा :** संसदीय चुनावों के दृष्टिगत जहां एक और पुलिस जरायम कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं वहीं आईटीआई थाना अंतर्गत पैगा चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के दर्जनों अड्डे आबाद है। चौकी क्षेत्र के कुछ गांवों में अवैध कच्ची शराब का गैर कानूनी कारोबार कुटीर उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। नशे की बढ़ते चलन के कारण जहां युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है वहीं दूसरी ओर मजदूर तबके के असंख्य परिवार कच्ची शराब के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।

राजेंद्र प्रसाद हमराहियों के साथ क्षेत्र में शराब बरामद किया। ऐसे ही टांडा उज्जैन पुलिस चौकी में तैनात दारोगा कंचन कुमार पलडिया ने हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त के दौरान ढकिया गुलाबो रोड स्थित पार्कर स्कूल के पास से ढकिया गुलाबो टांडा उज्जैन निवासी बिट्टू सैनी पुत्र बुद्धाराम कोशक के आधार पर पकड्कर 37 पाउच लगभग 12 लीटर कच्ची शराब बरामद किया। गिरफ्तार तीनों शराब तस्करों से पुलिस द्वारा जरूरी पूछताछ के बाद उनका धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चालान करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। पैगा चौकी क्षेत्र में नहीं थम

सड़क हादसे में जीजा साले की

चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मा दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एंबुलेंस से दोनों को खटीमा उप जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नौगवांनाथ के ग्राम प्रधान मदन सिंह ने बताया कि उनका भतीजा सुरेश विवाहित था और पेंटर का काम करता था। जबकि उनका दामाद सचिन रुद्रपुर सिडकुल में नौकरी करता था। वह अपने पीछे पत्नी ज्योति और पांच साल की पुत्री को रोता बिलखता छोड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली दीया गांव से आ रही थी। सीओ विमल रावत ने बताया कि ैट्रेक्टर-ट्रॉली को सीज कर दिया है। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

खटीमा। कोतवाली क्षेत्र के आलावृद्धि गांव के पास सोमवार देर शाम रेता से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार जीजा-साले की मौत हो गईं। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज कर दिया है. जबकि चालक फरार हो गया। पचपेड़ा निवासी सचिन सिंह राणा (35) पुत्र जय सिंह राणा नौगवांनाथ स्थित अपनी ससुराल आए थे। शाम को वह अपने साले नौगवांनाथ निवासी सुरेश सिंह राणा (30) पुत्र दया शंकर के साथ बाइक से सब्जी लेने के लिए बघियाघाट गए थे। देर शाम दोनों सब्जी लेकर नौगवांनाथ की ओर लौट रहे थे। तभी बघियाघाट-आलावृद्धि मार्ग पर रेता लेकर आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के

गश्त पर थे इसी दौरान उन्होंने कुंडेश्वरी गांव स्थित अंबेडकर बारात घर के समीप संदिग्ध हालत में चहल कदमी करते हुए कुंडेश्वर काशीपुर निवासी नीतू कौर पत्नी मंगल सिंह को शक के आधार पर पकड़ कर तलाशी में उसके कब्जे से 75 पाउच (25 लीटर) कच्ची शराब बरामद किया। इसी तरह कुंडेश्वरी चौकी में तैनात एस आई संतोष कुमार देवरानी ने गढवाल ब्लॉक की ओर जाने वाले मार्ग पर चहल कदमी कर रहे एक शख्स को शक के आधार पर दबोच कर तलाशी में उसके कब्जे से 60 पाउच (30 लीटर) अवैध कच्ची

काशीपुर(उद संवाददाता)। नशे के खिलाफ चलाएं अभियान के क्रम में कुंडेश्वरी एवं टांडा उज्जैन पुलिस का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। दोनों ही चौकी क्षेत्र में पुलिस के लगातार अभियान से अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों में हडकंप देखा जा रहा है। कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एस आई संतोष कुमार देवरानी एवं कांस्टेबल मुकेश कुमार ने दो अलग-अलग स्थानों से अवैध कच्ची शराब के दो तस्करों को दबोचकर तलाशी में उनके कब्जे से कुल 55 लीटर कच्ची शराब बरामद किया। कार्यवाही के बारे में पता चला है कि प्रभारी चौकी

युगल

हल्द्वानी( उद संवाददाता)। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका ने जहरीले

पदार्थ का सेवन कर लिया उसे उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती

कराया जहां प्रेमिका की मौत हो गई जबकि प्रेमी की हालत गंभीर बनी हुई है।

बरेली रोड अब्दुल्ला बिल्डिंग निवासी 34 वर्षीय लता पत्नी राकेश गुप्ता का प्रेम

प्रसंग इंदिरा नगर निवासी वसीम नमक युवक से 2023 चल रहा था दोनों ने ही

पहले से शादीशुदा थे। उसके बावजूद दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई और

बीते सोमवार को दोनों प्रेमियों ने विषैला पदार्थ का सेवन कर लिया हालत बिगड़ने

पर परिजन दोनों को सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए जहां लता को चिकित्सकों

ने मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे

में लेकर जानकारी जुटाई। कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि मृतका के तीन

बच्चे हैं। उसका पति यहां किराए के मकान में रहता है और रिक्शा चलाने का

कार्य करता है वहीं उन्होंने बताया कि वसीम की हालत गंभीर बनी हुई है। वसीम

इंदिरा नगर सबरी मस्जिद के पास रहता है। पुलिस ने वसीम उसकी पत्नी फिरदौस

तथा एक अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस

ने लता की शव का पोस्टमार्टम करा कर उसके परिजनों को सौंप दिया है।

क्या अंग्रेजी दवाईयां आपका रोग ठीक करने में नाकाम हैं तो मिलें-**MIAAC** निम्न रोगों के इलाज में 16 वर्षों का अनुभवः-पार्किसन्स, अल्जाइमर, मानसिक विकार,निःसन्तान स्त्री-पुरूष की सभी विकित्सार्थे, ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, कीटाणु की कमी आदि। डिस्क प्रोलेप्स सर्वाइकल, गठिया, घुटने का दर्द, किडनी रोग (डायलिसिस से पहले) लीवर सिरोसिस, हैपेटाइटिस B&C, Fatty Liver प्रोस्टेट रोग असाध्य एवं लाइलाज रोगियों की चिकित्सा शुद्ध आयुर्वीदेक पद्धति द्वारा की जाती है। DR. WIJEW PREMISH MISHRA

Mob.: 9410897970 स्त्री एवं त्वचा रोग मिलने का समय : प्रातः ११:०० बजे से दोपहर ३:०० बजे तक (शुक्रवार अवकाश होटल राजभी के सामने. गली नं० २, डॉक्टर्स कालोनी डी । डी २ सिविल लाईन, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखण्ड

#### 94 101 पर कब्जा करन का आराप দোর

रूद्रपुर (उद संवाददाता )। एक व्यक्ति द्वारा क्रय किए प्लॉट पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाते हु भू स्वामी ने पुलिस से शिकायत की ही। ओम प्रकाश उपाध्याय पुत्र अमर नाथ उपाध्याय निवासी एलायन्स कॉलोनी का कहना है कि उसका एक भूखण्ड ग्राम कोलडा़ (पाम ग्रीन) में है। भूखण्ड को उसने रजिस्टी बैनामा से 12 अप्रैल 2013 को क्रय किया था तथा उक्त भखण्ड राजस्व भू–अभिलेखों में उसके नाम पर दर्ज है। अपने भूखण्ड में चारदिवारी बनवा रखी थी।एक सप्ताह पूर्व उसे जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके प्लाट की चारदिवारी तोडकर उसकी जगह अपनी चारदिवारी का निर्माण करा लिया है। मौका मुआयना किया लेकिन चारदिवारी बनवाने वाले व्यक्ति से सम्पर्क नहीं हो सका है। ओम प्रकाश का कहना है कि उस सन्देह है उक्त व्यक्ति उसके प्लाट पर अपना अनाधिकृत कब्जा करने की फिराक में है।

#### चुनाव लड़गी काग्रस ताकत

रूदपुर( उद संवाददाता )। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और पांचों सीटों पर जीत हासिल करेगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि समय परिवर्तनशील है, वह एक चक्र के समान है,जैसे रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, ठीक उसी के अनुसार परिस्थितियां भी हमेशा बदलती रहती हैं। श्रीमती शर्मा ने कहा कि रात के वक्त अंधेरा अवश्य आता है, लेकिन अंध ेरे से कोई डरता नहीं है, क्योंकि सभी को यह पता रहता है कि अंधेरा परमानेंट नहीं होता है, वह जल्दी ही छंटता है,और फिर उजाला भी होता है,क्योंकि यह प्रकृति का नियम भी है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि

परिस्थितियों से बिल्कुल भी परेशान ना उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान हों, क्योंकि यह समय उनके लिए कठिन परीक्षा का समय है और इससे हमें



बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जल्द ही हम इस समय से उबर जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदलेंगी और कांग्रेस एक

गदरपुर(उद संवाददाता)। एल्डा न होने की वजह से बच्चे इस विषय पर भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने

किया कि वह धैर्य, संयम,निष्ठा, लगन, समर्पण,का परिचय दें, वह भाजपा से मुकाबला करें। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं जल्दी ही परचम लहराएगा। श्रीमती शर्मा सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इस मूलमंत्र को कांग्रेस कार्यकर्ता समझें और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीताने के लिए आगे आएं। श्रीमती शर्मा ने कहा कि वह रुद्रपुर विधानसभा में धुआंधार प्रचार करेंगी, और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश की बार फिर से पुरानी स्थिति में आएगी। लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगी।

#### ARCHIDPLY INDUSTRIES LIMITED (CIN: L85110UR1995PLC008627)

Regd. Office: Plot No. 7, Se - 9, Integrated Industrial Estates SIDCUL, Pant Nagar, Udham Singh Nagar, Rudrapur , Uttarakhand, 263153, Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269 Cor. Office: Plot No 2, Block No 1, W.H.S., Kirti Nagar, New Delhi-110015 Phone- 011-45530828, 011-45642555, Website: www.archidply.com, Email: cs@archidply.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of Archidply Industries Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, ("the Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings / conducting Postal Ballot process through e-Voting vide General Circulars No. 14/2020 dated April 3, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020, December 31, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No.20/2021 dated December 8, 2021, No.03/2022 dated May 5, 2022, No. 11/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India "SS-2") and other applicable provisions, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company seeks approval of the Members through Postal Ballot only by way of remote voting through electronic means ("E-Voting") in respect of the ollowing special business as specified in the Postal Ballot Notice dated January 25, 2024 along with explanatory statement thereto:

S. No.	Description of Item	Type of resolution
1.	Appointment of Mr. Rohit Pareek (DIN: 08132565) as an Independent Director of the Company	Special Resolution

n compliance with aforesaid MCA Circulars, Notice of Postal Ballot has been sent through electronic mode on Monday, 18th March, 2024 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participant ("DP") or Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz KFIN Technologies Limited as on the Cut-off date i.e. Friday, 08th March, 2024.

The Notice of Postal Ballot is also available on the website of the Company i.e vww.archidp Stock Exchange at <u>www.nseindia.com</u> and website of KFin Technologies Limited at <u>www.kfintech.com</u>. Members who do not receive the Notice may download it from the aboveof KFin Technologies Limited at mentioned websites.

कदाचित डरे नहीं बल्कि उसका डटकर को भरोसा दिलाया कि देश में कांग्रेस का ने कहा कि सत्य प्रताड़ित तो जरूर हो लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद

छात्राआ का किया जागरूक

कहा कि हमारी

उंडेशन ने राजकीय महाविद्यालय में खलकर बात नहीं करते माता पिता भी इन होने शुरू हो जाते हैं लेकिन जागरूकता

आयोजित कार्यशाला में छात्राओं को बदलावों को लेकर अपने बच्चों से छिपाते स्वच्छता मिशन को लेकर काफी काम शारीरिक बदलाव के संदर्भ में जानकारी है जिससे बच्चे माहवारी के बारे में कर रही है। संस्था ने डिग्री कालेज में दी तथा कहा कि एक उम्र के पश्चात अनजान रहते हैं। साफ सफाई का ध्यान इसिरेटर व सेनेटरी पेड वेडिंग मशीन शरीर मे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं इससे न रखने से कई बार संक्रमण भी हो जाता नि:शल्क उपलब्ध करवाई है भविष्य में . भवराने या चिंतित होने की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय पर खुलकर बात उनकी संस्था और भी अच्छा करने की नहीं है। माहवारी के दौरान व्यक्तिगत) करनी चाहिए क्योंकि यह कोई अभिशाप) कोशिश करेगी। इस दौरान बच्चो ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है यह प्रकृति का एक महिला के स्वच्छता पर पोस्टर भी बनाए जिसमें सना होती है जिससे कोई संक्रमण न लिए वरदान है तो जरूरी है कि अपने अंसारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हो।कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए माता पिता से इस विषय पर चर्चा करें। कॉलेज की प्राचार्य शर्मिला सक्सेना ने फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ0 पूजा शाहीन फाउंडेशन की लखनऊ अध्यक्ष राजश्री ने कहा कि किशोरावस्था में यह बदलाव नीरज ने कहा कि बच्चे देश की धरोहर में तनुजा, अशोक कुमार, अर्चना वर्मा, है यही आगे चलकर देश के विकसित प्रमोद वर्मा,प्रभजोत कौर,रेनूमौजूद रहे।

संस्था का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम

संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में



A person, whose name is recorded in the register of members/list of beneficial owner as on the cutoff date shall only be considered eligible for the purpose of e-voting. Any recipient of the Notice who was not a member of the Company as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only

The members of the Company are hereby notified that:

1. The voting rights of the Members shall be reckoned in proportion to the equity shares held by them on the Cut-off date on Friday, 08th March, 2024.

 The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited for the purpose of providing e-voting facility to all its members on the resolution set forth in the Notice. The instructions for e-Voting are given in detail in Postal Ballot Notice.

 The remote e-Voting period will commence on Tuesday, 19th March, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 17th April, 2024 at 5:00 P.M. (IST). Remote e-Voting will not be allowed beyond aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by KFin Technologies Limited upon expiry of the period. The Company has appointed CS Rajneesh Sharma, Company Secretary in whole-time

practice with Membership Number FCS: 5549 & COP: 24210 as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of e-voting along with Scrutinizer's report will be announced within 2 working days from the conclusion of the e-voting and will be placed on the website of the Company i.e. www.archidply.com and on the website of KFin Technologies Limited at www.kfintech.com. The results shall also be uploaded on the Bombay Stock Exchange (BSE) portal i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange portal i.e. www.nseindia.com. The Company will also display the Result of e-voting alongwith Scrutinizer report on the Notice Board of its Registered office.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the 'download' section of <u>https://evoting.kfintech.com</u> or call KFin Technologies Limited on 1800 309 4001 (toll free).

For Archidply Industries Limited Sd/ Atul Krishna Pande Company Secretar Membership No. ACS 47815

